

# टेंडर प्रस्ताव पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्व्यू)

## संस्करण 1.0

## जुलाई 2022

### अस्वीकरण:

“यह दस्तावेज़/एफएक्व्यू सदस्यों की समझ में आसानी के लिए उपरोक्त विषय से संबंधित प्रश्नों का संक्षिप्त रूप में सारांश प्रस्तुत करता है। यहाँ दी गई जानकारी और/या विषय-वस्तु (सामूहिक रूप से 'सूचना') केवल सामान्य जानकारी है और एनएसई ने समय-समय पर इस संबंध में विस्तृत परिपत्र जारी किए हैं, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है। यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि जानकारी पर्याप्त और विश्वसनीय है, एनएसई द्वारा इसकी सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और एनएसई, इसके सहयोगी और सहायक कंपनियाँ इस जानकारी पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान, जिसमें बिना किसी सीमा के लाभ की हानि भी शामिल है, के लिए किसी भी प्रकार का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं परिश्रम करें और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे केवल इस दस्तावेज़ पर भरोसा न करें। ऐसा कोई भी भरोसा पाठक के अपने जोखिम पर होगा। यहाँ कही गई कोई भी बात एनएसई को किसी भी तरह से बाध्य नहीं करेगी। पाठकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन अनुवाद सेवाओं का प्रयोग करते हुए एफएक्व्यू की विषय-वस्तु का (हिंदी) भाषा में अनुवाद किया गया है। जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि अनुवाद सटीक रहे, अनुवाद प्रक्रिया की तकनीकी सीमाओं के कारण अनुवाद में अशुद्धियाँ हो सकती हैं। पाठक मूल संस्करण (अंग्रेजी) के साथ अनुवादित सामग्री की सटीकता को सत्यापित कर सकते हैं। एफएक्व्यू में विसंगतियों या मतभेदों या अनुवाद से उत्पन्न होने वाले अनुपालन या प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा, जोकि उपयुक्त सर्कुलर के अधीन होंगे।”

## पृष्ठभूमि:

एक टेंडर प्रस्ताव एक निगम में शेयरधारकों के कुछ या सभी इक्विटी शेयरों को खरीदने के लिए एक बोली है। टेंडर प्रस्ताव आम तौर पर सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं और शेयरधारकों को एक निर्दिष्ट मूल्य के लिए और एक विशेष समय सीमा के भीतर अपने शेयर बेचने के लिए आमंत्रित करते हैं।

सेबी (प्रतिभूतियों का वापस खरीदें) विनियम, 1998 (इसके बाद "वापस खरीदें विनियम" के रूप में संदर्भित), सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (इसके बाद "अधिग्रहण विनियम" के रूप में संदर्भित), सेबी (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता) विनियम, 2009 को समय-समय पर संशोधित किया गया था ताकि शेयरधारकों द्वारा शेयरों की टेंडर की सुविधा प्रदान की जा सके और सेबी द्वारा विनिदष्ट स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से उसका निपटान किया जा सके।

## सामान्य प्रश्न:

### 1. टेंडर प्रस्ताव तंत्र किस प्रकार के मुद्दों पर लागू होता है?

टेंडर प्रस्ताव तंत्र निम्नलिखित 3 प्रकार के मुद्दों पर लागू होता है:

- 1) वापस खरीदें
- 2) डीलिटिंग
- 3) अधिग्रहण

### 2. टेंडर प्रस्ताव में कौन भाग ले सकता है?

पूंजी बाजार खंड में सक्षम सदस्य टेंडर प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं।

व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं के निर्माण के लिए, सदस्य ईमेल आईडी पर अनुरोध भेज सकते हैं [msm@nse.co.in](mailto:msm@nse.co.in) निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करते हुए

सदस्य कोड	सदस्य का नाम	सदस्य व्यवस्थापक	मोबाइल नंबर	सदस्य व्यवस्थापक ई-मेल आईडी
-----------	--------------	------------------	-------------	-----------------------------

### 3. टेंडर प्रस्ताव के मामले में आदेश देने के लिए क्या शर्त है?

सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वयं के अनुरूप यूसीसी (पीआरओ) और इसके ग्राहकों को अद्यतन किया जाए टेंडर प्रस्ताव बोली से एक दिन पहले विशिष्ट ग्राहक पहचान (यूसीआई) प्रणाली में अधिवेशन।

यूनीक क्लाइंट कोड और पैन के रूप में यूसीआई डेटाबेस में सदस्य द्वारा अद्यतन/उपलब्ध कराया गया आदेश प्रविष्टि के समय मान्य किया जाएगा।

सदस्य या उसके ग्राहक बोली सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे, यदि यूसीसी को अपडेट किया जाता है या टेंडर प्रस्ताव बोली सत्र के दिन अनुपालन किया जाएगा और तदनुसार आदेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कृपया परिपत्र संख्या देखें। एनएसई/आईएससी/52628 दिनांक 14 जून, 2022, एनएसई/आईएससी/52722 दिनांक 23 जून, 2022 और एनएसई/सीएमटीआर/52776 दिनांक 29 जून, 2022

### 4. आप टेंडर ऑफर में ऑर्डर कैसे दे सकते हैं?

वेब आधारित ईआईपीओ बोली मंच में एक अलग अधिग्रहण विंडो प्रदान की गई है टैब के तहत बिक्री आदेश देने की सुविधा: विविध -> टेंडर टैब।

EIPO को एक्सेस करने के लिए URL नीचे दिया गया है:

यूआरएल: <https://eipo.nseindia.com>

**5. ऑर्डर प्रविष्टि के दौरान सदस्य किस मोड में ऑर्डर दे सकते हैं और इसकी शर्तें क्या हैं?**

ऑर्डर प्रविष्टि के दौरान, सदस्य डीमैट के साथ-साथ भौतिक शेयरों के लिए ऑर्डर दर्ज कर सकते हैं। डीमैट शेयरों के ऑर्डर के लिए (कस्टोडियन पार्टिसिपेंट ऑर्डर को छोड़कर) ऑर्डर देने से पहले प्रतिभूतियों का प्रारंभिक भुगतान अनिवार्य है। कस्टोडियन पार्टिसिपेंट (सीपी) के लिए, डीमैट शेयरों के लिए ऑर्डर के लिए कस्टोडियन द्वारा ऑर्डर की पुष्टि से पहले जल्दी पे-इन अनिवार्य है। सीपी आदेशों के मामले में, संरक्षक या तो प्रस्ताव अवधि के अंतिम दिन के बाद आदेशों की पुष्टि या अस्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद, सभी अपुष्ट आदेशों को अस्वीकार माना जाएगा। भौतिक शेयरों के आदेश के मामले में, भौतिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन आरटीए द्वारा किया जाएगा। (टेंडर योजना परिपत्र संदर्भ संख्या एनएसई/सीएमटीआर/49411 दिनांक 26 अगस्त, 2021 का पृष्ठ संख्या 4 देखें)

**6. बोली/आदेश की संरक्षक पुष्टि के लिए कट ऑफ समय क्या है?**

बोली/आदेश की संरक्षक पुष्टि बोली सत्र के दौरान प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे तक और अंतिम दिन शाम 4.00 बजे तक प्रदान की जा सकती है।

**7. क्या बोलियां मैनुअल रूप से दर्ज की जा सकती हैं?**

हां, बोलियां EIPO बिडिंग प्लेटफॉर्म में मैनुअल रूप से दर्ज की जा सकती हैं: विविध-टेंडर-जोड़ें आदेश. विवरण का उल्लेख एनएसई परिपत्र संदर्भ संख्या एनएसई/सीएमटीआर/49411 दिनांक 26 अगस्त, 2021 में किया गया है।

**8. क्या बल्क अपलोड सुविधा की अनुमति/अनुमति है?**

हां, बल्क अपलोड सुविधा की अनुमति है। फ़ाइल स्वरूप ईआईपीओ बिडिंग प्लेटफॉर्म में टैब के अंतर्गत उपलब्ध है: विविध-फ़ाइल स्वरूप।

**9. डीलिंग/बाय बैक/टेक ओवर के तहत मूल्य मानदंड, रद्दीकरण और संशोधन मानदंड क्या हैं?**

क्रम संख्या	व्यक्तियों	डीलिस्टिंग	अधिग्रहण	वापस खरीदें
1	मूल्य पैरामीटर	रिवर्स बुक बिडिंग	निश्चित	निश्चित
2	बोलियों में संशोधन	बंद होने के दिन से एक दिन पहले तक ऊपर की ओर	अनुमति नहीं है	अनुमत
3	बोलियों को रद्द करना	बंद होने के दिन से एक दिन पहले निकासी की अनुमति	अनुमति नहीं है	अनुमत
4	बोलियों को रद्द करने/संशोधित करने का अंतिम दिन	अनुमति नहीं है	अनुमति नहीं है	अनुमत